

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, बुध्दिवार, फरवरी 18, 1982/माघ 29, 1903
No. 30] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 18, 1982/MAGHA 29, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 9-आईटीसी(पीएन)/82

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1982

विषय :—इक् सामान्य प्रयोजन क्रेडिट से सम्बन्धित लाइसेंस शर्तें ।

मिस्त्र सं. आईपीसी/23(12)/81.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक
सूचना सं. 8-आईटीसी(पीएन)/81, दिनांक 28 फरवरी, 1981 की ओर ध्यान
दिलाया जाता है, जिसमें नीदरलैंड सरकार क्रेडिट के अन्तर्गत लाइसेंस के
जारी करने को नियंत्रित करने वाली शर्तें अधिसूचित की गई हैं ।

2. यह निश्चय किया गया है कि 28 फरवरी, 1981 की पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना में जो शर्तें अभिसूचित की गई हैं वे नए 165 मिलियन डच फ्लोरिन के क्रेडिट दिनांक 4 सितम्बर, 1981 के अंतर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंसों के लिए भी लागू होंगी जो भारत सरकार और विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच हुआ था ।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं निर्यात

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक,

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 9-ITC(PN)/82

New Delhi, the 18th February, 1982

Subject :—Licensing conditions pertaining to Dutch General Purpose Credit.

F. No. IPC[23(12)]81.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 8-ITC(PN)[81 dated the 28th February 1981 notifying the terms and conditions governing the issuance of licences under the Netherland Government credit.

2. It has been decided that the terms and conditions as notified in the afore-said Public Notice of 28th February, 1981, will also apply to the import licences issued under the new credit for Dfl. 165 million of 4th September, 1981 entered into between the Government of India and the Netherlands Investment Bank for Developing Countries.

MANI NARAYANSWAMY, Chief Controller of
Imports & Exports